



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 64 राँची, गुरुवार, 12 माघ, 1939 (श०)

1 फरवरी, 2018 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
संकल्प

17 नवम्बर, 2017

विषय: “चन्द्रवंशी (कहार)” जाति की समजाति “रवानी” को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-30 पर दर्ज “चन्द्रवंशी (कहार)” के साथ शामिल करने के संबंध में ।

संख्या-14/जा०नि०-03-01/2016 का.- 11460 -- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि “चन्द्रवंशी (कहार) जाति की समजाति रवानी को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-30 पर स्थित चन्द्रवंशी (कहार) के साथ ‘चन्द्रवंशी/रवानी (कहार)’ के रूप में शामिल की जाय” के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 30 को निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जाय;

परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार है:-

**क्रमांक-30:- चन्द्रवंशी (कहार), चन्द्रवंशी/रवानी (कहार)**

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**निधि खरे,**

सरकार के प्रधान सचिव।

-----